



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 6—जनवरी 12, 2007 (पौष 16, 1928)  
No. 1] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 6—JANUARY 12, 2007 (PAUSA 16, 1928)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग I—खण्ड 2

## [PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

## योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 21 नवम्बर 2006

सं. ए-12013/02/2006-प्रशा. II--राष्ट्रपति, योजना आयोग के जी. सी. एस. के निम्नलिखित अनुसंधान अधिकारियों को जी. सी. एस. पदों के स्थान पर पूर्णतः तदर्थ आधार पर प्रत्येक के सामने इंगित पद पर वेतनमान रुपये 10,000-325-15,200/- में वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारियों के रूप में दिनांक 21.11.2006 (पूर्वाह्न) से एक वर्ष की अवधि के लिए या पदों के नियमित आधार पर भरे जाने तक या नियमित पदधारियों के कार्य ग्रहण करने तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं :-

क्रम नाम एवं पदनाम सं.	जिस पद पर नियुक्त किए गए
1. डॉ. रंजन कुमार प्रधान अनुसंधान अधिकारी (रासायनिक अभियांत्रिकी)	वरिष्ठ अनु. अधिकारी (रासायनिक अभियांत्रिकी)
2. श्री दिनेश धवन अनुसंधान अधिकारी (परियोजना मूल्यांकन)	वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (प्राकृतिक विज्ञान)

2. यह तदर्थ नियुक्ति किसी भी अधिकारी को वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी के ग्रेड में नियमित नियुक्ति हेतु किसी दावे को प्रदान नहीं करेगी और उनमें से किसी के द्वारा वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी के ग्रेड में तदर्थ आधार पर की गई कोई सेवा न तो वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी के ग्रेड में वरिष्ठता के उद्देश्य हेतु और न ही अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए अर्हता हेतु गिनी जाएगी।

आर. के. परमार, अव. सचिव

दिनांक 13 दिसम्बर 2006

सं. ए-43014/03/2006-प्रशा. II--रक्षा मंत्रालय, आर्थिक मामलों विभाग के आदेश सं. 11016/3/2006 आई. ई. एस. दिनांक 8.12.2006 के तहत, उनकी भारतीय आर्थिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (जे ए जी) में पदोन्नति होने के फलस्वरूप, श्री सांवर मल मीणा को योजना आयोग में वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी के पद से दिनांक 13 दिसम्बर, 2006 की अपराह्न से कार्यभार मुक्त किया जाता है।

आर. के. परमार, अव. सचिव

## गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 14 दिसम्बर 2006

सं. 14031/1/2003-यूटीएस--अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर, अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम संघ शासित क्षेत्र के संयुक्त संवर्ग के 1991 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री एस. एम. मजूमदार दिनांक 30 नवम्बर, 2006 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए।

एस. सी. एल. दास, निदेशक

सं. 14031/1/2003-यूटीएस--अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर, अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम संघ शासित क्षेत्र के संयुक्त संवर्ग के 1991 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री तागोम दर्रांग दिनांक 30 नवम्बर, 2006 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए।

एस. सी. एल. दास, निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 21 दिसम्बर 2006

सं. 14011/1/2006-एसआर (पार्ट)--इस मंत्रालय की दिनांक 8.1.2004 की अधिसूचना सं. 14011/2/2002-एसआर के क्रम में, सेना मुख्यालय, नई दिल्ली के उप निदेशक श्री के. एन. मंजुनाथ की क्षेत्रीय परिषद् सचिवालय, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली में उप सचिव के रूप में प्रतिनियुक्ति की अवधि को उन्हीं शर्तों पर दिनांक 1 जनवरी, 2007 से छः माह की अवधि के लिए या अगले आदेश होने तक, इनमें जो भी पहले हो, बढ़ाया जाता है।

सुमिता मुखर्जी, निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 26 दिसम्बर 2006

सं. I-18012/20/2006-आईपीएस-1--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिबीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय पुलिस सेवा के तमिलनाडु संवर्ग के निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के सामने दर्शायी गई तारीखों से स्थायी करते हैं :-

क्रम अधिकारी का नाम सं.	भा. पु. से. में स्थायीकरण की तारीख
सर्वश्री	
1. के. पेरियाह	21.05.2004
2. ए. जी. मौर्या	21.05.2004
3. ए. पारी	21.05.2004
4. एन. के. सेन्थामरु कन्नन	21.05.2004
5. के. एन. सत्यमूर्ति	21.05.2004
6. सी. श्रीधर	21.05.2004
7. एस. मुरुगन	21.05.2004
8. वी. वरधराजू	21.05.2004

ओ. एस. अशोक, अवर सचिव

## कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 15 दिसम्बर 2006

## शुद्धि पत्र

सं. 14015/13/2006-अ.भा.से. (I)-क--भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग के लिए पदोन्नति हेतु वर्ष 2006 की चयन सूची को अधिसूचित करने वाली इस विभाग की दिनांक 11 दिसम्बर, 2006 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम संख्या 04 पर उल्लिखित नाम को श्री एस. सुशैल अली के बजाय श्री एस. सुहैल अली पढ़ा जाए।

जगन लाल, अवर सचिव

दिनांक 22 दिसम्बर 2006

सं. 14015/24/2006-अ.भा.से. (I)-क--भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 7 के उप विनियम (3) में निहित उपबन्धों के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग ने पश्चिम बंगाल संवर्ग हेतु भारतीय प्रशासनिक सेवा में वर्ष 2006 के दौरान 12 (बारह) रिक्त पदों को भरने के लिए चयन समिति द्वारा 6 अक्टूबर, 2006 को संपन्न अपनी बैठक में वर्ष, 2006 के लिए तैयार की गई उस चयन सूची जिसमें पश्चिम बंगाल संवर्ग की राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित सदस्यों के नामों का उल्लेख किया गया है, को 15 दिसम्बर, 2006 को अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

क्रम अधिकारी का नाम सं.	जन्म तिथि
(सर्वश्री)	
1. देब कुमार चक्रवर्ती	21.10.1953
2. रामपाड़ा विश्वास (अनुसूचित जाति)	26.11.1953
3. श्रीमती बन्दना बन्द्योपाध्याय (चक्रवर्ती)	07.07.1954
4. हर्ष गोपाल मुसीब (अन्य पिछड़ा वर्ग)	04.12.1952
5. सोमेश कुमार भट्टाचार्य	05.01.1955
6. दिलीप कुमार चक्रवर्ती	03.06.1955
7. उमाशंकर मंडल (अनुसूचित जाति)	09.04.1954
8. देबी प्रसाद बन्द्योपाध्याय	01.04.1952
9. देबाब्रता पाल	29.01.1956
10. पृथ्वी दुलाल बन्द्योपाध्याय	27.10.1953
11. श्रीमती शीला नाग (पहाड़ी)	11.04.1952
12. मो. शाहिदुल इस्लाम	12.10.1954

जगन लाल, अवर सचिव

सं. 14015/24/2006-अ. भा. से. (I)-ख--भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप विनियम

(1) और भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 के साथ पठित, भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली 1954 के नियम 8 के उप नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, वर्ष, 2006 हेतु रिक्तियों पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए पश्चिम बंगाल की राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को परिवीक्षा पर तत्काल प्रभाव से अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं और भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 के उप नियम (1) के तहत उन्हें पश्चिम बंगाल संवर्ग में आबंटित करते हैं।

क्रम अधिकारी का नाम

सं.

(सर्वश्री)

1. देब कुमार चक्रवर्ती
2. रामपाड़ा विश्वास (अनुसूचित जाति)
3. श्रीमती बन्दना बन्द्योपाध्याय (चक्रवर्ती)
4. हर्ष गोपाल मुसीब (अन्य पिछड़ा वर्ग)
5. सोमेश कुमार भट्टाचार्य
6. दिलीप कुमार चक्रवर्ती
7. उमाशंकर मंडल (अनुसूचित जाति)
8. देबी प्रसाद बन्द्योपाध्याय
9. देबाब्रता पाल
10. पृथ्वी दुलाल बन्द्योपाध्याय
11. श्रीमती शीला नाग (पहाड़ी)
12. मो. शाहिदुल इसलाम

जगन लाल, अवर सचिव

सं. 14015/24/2006-अ. भा. से. (I)-ख--भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1997 के विनियम 8 के उप विनियम (1) और भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 के साथ पठित, भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली 1954 के नियम 8 के उप नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, पश्चिम बंगाल गैर राज्य सिविल सेवा के अधिकारी सर्वश्री सुसन्ता मजूमदार और अपूरबा रत्न चक्रवर्ती को भारतीय प्रशासनिक सेवा में परिवीक्षा पर तत्काल प्रभाव से, अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं और भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 के उप नियम (1) के तहत उन्हें पश्चिम बंगाल संवर्ग में आबंटित करते हैं।

जगन लाल, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 22 दिसम्बर 2006

सं. 39021/03/2006-स्था. (ख)--राष्ट्रपति, श्रीमती सी. टी. मिश्रा, भारतीय प्रशासनिक सेवा (गुजरात : 72) को दिनांक 30 अक्टूबर, 2006 (अपराह्न) से अध्यक्ष, कर्मचारी चयन आयोग के रूप में नियुक्त करते हैं। उनकी अधिवर्षिता की आयु से आगे अध्यक्ष, कर्मचारी चयन आयोग के रूप में उनकी नियुक्ति पुनर्नियोजन आधार पर की गई नियुक्ति के अनुसार, उनके कार्यकाल को 62 वर्ष तक सीमित रखते हुए या अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, लागू होगी।

सी. ए. सुब्रमणियन, निदेशक

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 अक्टूबर 2006

सं. क्यू/पीएफ/661 (11)/11/2005--इस मंत्रालय की पूर्व अधिसूचना संख्या 3/पीएफ/2005 दिनांक 18 मार्च, 2005 और उसके बाद की अधिसूचना संख्या 1/पीएफ/2006 दिनांक 20 मार्च, 2006 के अनुक्रम में राष्ट्रपति इस मंत्रालय में सहायक पुस्तकालय सूचना अधिकारी के ग्रेड में श्री एस. के. बिहानी की तदर्थ पदोन्नति को 8 अक्टूबर, 2006 के पूर्वाह्न से निरस्त करते हैं। श्री एस. के. बिहानी को अब 8 अक्टूबर, 2006 के पूर्वाह्न से वरिष्ठ पुस्तकालय एवं सूचना सहायक जो अराजपत्रित पद हैं, पर प्रत्यावर्तित किया गया है।

2. श्री संजय कुमार बिहानी ने 1 मार्च, 2005 से तदर्थ आधार पर सहायक पुस्तकालय अधिकारी का कार्यभार ग्रहण किया था।

रमेश पी. चतुर्वेदी, प्रशासनिक अधिकारी (पीएफ)

सं. क्यू/पीएफ/661 (11)/11/2005--राष्ट्रपति श्री वजीर सिंह मौर वरिष्ठ पुस्तकालय एवं सूचना सहायक को 10.10.2006 (पूर्वाह्न) से सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी नियुक्त करते हैं।

2. श्री वजीर सिंह मौर ने सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी के पद का कार्यभार 10 अक्टूबर, 2006 के पूर्वाह्न से ग्रहण कर लिया है।

रमेश पी. चतुर्वेदी, प्रशासनिक अधिकारी (पीएफ)

क्रम अधिकारी का नाम

जन्म तिथि

सं.

- |                               |            |
|-------------------------------|------------|
| 1. श्री सुसन्ता मजूमदार       | 05.12.1953 |
| 2. श्री अपूरबा रत्न चक्रवर्ती | 05.07.1953 |

जगन लाल, अवर सचिव

चयन सूची 2006

नई दिल्ली, दिनांक 01 नवम्बर 2006

सं. क्यू/पीए-1/47/2006--यमन गणराज्य (साना) में भारत के राजदूत श्री अलगापुरियन करुपैया अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 31.10.2006 के अपराह्न को भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-III से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

अरिंदम बागची, उप सचिव (एफ एस पी)

नई दिल्ली, दिनांक 12 दिसम्बर 2006

सं. 06/पी बी-1/2006--सी. सी. एस. पेंशन नियमावली के नियम 38 के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का अनुरोध स्वीकार कर लिये जाने के परिणामस्वरूप भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य संवर्ग के समन्वित ग्रेड-II और III के अधिकारी श्री जेरोम खाखा 23.11.2006 को पूर्वाह्न में सरकारी सेवा से निवृत्त हो गये और 23 नवम्बर, 2006 को पूर्वाह्न में विदेश मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी का पदभार त्याग दिया।

जलधि मुखर्जी, प्रशासनिक अधिकारी (पीबी-1)

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 28 नवम्बर 2006

सं. 88 : (फा. सं. ए.-19011/23/2006-प्रशासन-1)--भारत के राष्ट्रपति, श्री एस. के. सिंघल, भारतीय राजस्व सेवा (सी. शु. एवं के. उ. शु. : 1970) को दिनांक 23 नवम्बर, 2006 (अपराह्न) से और अगले आदेश होने तक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग में सदस्य के रूप में नियुक्त करते हैं।

श्यामला मोहन, अवर सचिव

सं. 89 : (फा. सं. ए.-19012/21/2004-प्रशासन-1)--इस विभाग की दिनांक 4.1.2005 की अधिसूचना सं. 3 के क्रम में, भारत के राष्ट्रपति, उप सचिव, श्री एम. सुब्रमणियम, भारतीय राजस्व सेवा (सी. शु. एवं के. उ. शु. : 91) को दिनांक 12.10.2006 (पूर्वाह्न) से उनके पांच वर्षों की शेष अवधि के लिए अर्थात् दिनांक 02.01.2010 तक अथवा अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, राजस्व विभाग में निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

श्यामला मोहन, अवर सचिव

सं. 90 : (फा. सं. ए.-19012/9/2005-प्रशासन-1)--इस विभाग की दिनांक 12.7.2005 की अधिसूचना सं. 74 के क्रम में, भारत के राष्ट्रपति, उप सचिव, श्री पी. वी. सुब्बा राव, भारतीय राजस्व सेवा (सी. शु. एवं के. उ. शु. : 91) को दिनांक 1.10.2006 (पूर्वाह्न) से उनके पांच वर्षों की शेष अवधि के लिए अर्थात् दिनांक 30.6.2010 तक अथवा अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, राजस्व विभाग में निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

श्यामला मोहन, अवर सचिव

सं. 91 : (फा. सं. ए.-19012/5/2003-प्रशासन-1)--इस विभाग की दिनांक 13.2.2003 की अधिसूचना सं. 18 के क्रम में, भारत के राष्ट्रपति, उप सचिव, सुश्री प्रिया वी. के. सिंह, भारतीय राजस्व सेवा (सी. शु. एवं के. उ. शु. : 91) को दिनांक 16.9.2005 (पूर्वाह्न) से उनके पांच वर्षों की शेष अवधि के लिए अर्थात् दिनांक 10.02.2008 तक अथवा अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, राजस्व विभाग में निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

श्यामला मोहन, अवर सचिव

सं. 92 : (फा. सं. ए.-19012/13/2005-प्रशासन-1)--इस विभाग की दिनांक 13.2.2003 की अधिसूचना सं. 115 के क्रम में, भारत के राष्ट्रपति, उप सचिव, सुश्री सिम्मी जैन, भारतीय राजस्व सेवा (सी. शु. एवं के. उ. शु. : 91) को दिनांक 16.9.2005 (पूर्वाह्न) से उनकी पांच वर्षों की शेष अवधि के लिए अर्थात् दिनांक 25.09.2010 तक अथवा अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, राजस्व विभाग में निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

श्यामला मोहन, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 14 दिसम्बर 2006

सं. 4/2006 (फा. सं. 26/07/2006-प्रशासन-1 ग)--भारत के राष्ट्रपति, अधिवक्ता श्री देबेन्द्रनाथ पांडा को दिनांक 22.11.2006 (अपराह्न) से और 62 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक और अगले आदेश तक, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवाकार अपील अधिकरण (सीस्टेट), कोलकाता में सदस्य (न्यायिक) के रूप में नियुक्त करते हैं।

प्रीति पंत, अवर सचिव

सं. 5/2006 (फा. सं. 26/08/2006-प्रशासन-1 ग)--भारत के राष्ट्रपति, अधिवक्ता श्री प्रदीप कुमार दास को दिनांक 22.11.2006 (पूर्वाह्न) से और 62 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक और अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवाकार अपील अधिकरण (सीस्टेट), नई दिल्ली में सदस्य (न्यायिक) के रूप में नियुक्त करते हैं।

प्रीति पंत, अवर सचिव

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 15 दिसम्बर 2006

सं. ए.-42011/1/2004-प्रशा. I ए--आर्थिक कार्य विभाग (आईईएस अनुभाग) के दिनांक 6.12.2006 के आदेश सं. 11016/5/2000-आईईएस (खंड-II) के द्वारा 14,000-400-18,300/- रुपये के वेतनमान में अकार्यात्मक चेंयन ग्रेड (एनएफएसजी) प्रदान किए जाने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति भारतीय आर्थिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी सुश्री अन्ना रॉय और श्री आलोक चंद्र को, वैयक्तिक

पदोन्नति के तौर पर वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में 9 अक्टूबर, 2006 से और अगले आदेशों तक निदेशक नियुक्त करते हैं।

बी. रामकुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 22 दिसम्बर 2006

सं. ए.-19012/14/2006-प्रशा. I ए.--राष्ट्रपति भारतीय आर्थिक सेवा के अकार्यात्मक चयन ग्रेड अधिकारी श्री राजन कुमार को वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में 1 दिसम्बर, 2006 से और अगले आदेशों तक 14,300-400-18,300/- रुपये के वेतनमान में निदेशक नियुक्त करते हैं।

नीलम वोहरा, अवर सचिव

व्यय विभाग

मुख्य सलाहकार लागत का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 नवम्बर 2006

सं. ए.-32013/4/2005-प्रशा. I--राष्ट्रपति, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के अंतर्गत भारतीय लागत लेखा सेवा के निम्नलिखित संयुक्त निदेशकों (लागत) को उसी सेवा में उनके नामों के सामने दर्शाई गई तारीख से 14,300-400-18,300/- रुपये के वेतनमान में अकार्यात्मक चयन ग्रेड-निदेशक (लागत) के रूप में नियुक्त करते हैं :-

क्रम अधिकारी का नाम सं.	निदेशक (लागत) के रूप में नियुक्ति की तारीख
1. श्रीमती अणिमा दत्ता स्वामी	01.08.2003
2. श्री जी. रामचन्द्रन	18.11.2004
3. श्री एस. सी. बेरा	15.02.2005
4. श्री एम. के. आनंद	15.02.2005
5. श्री जी. आर. वधवा	15.02.2005
6. श्री एम. पी. सिंह	15.02.2005
7. श्री आई. पी. सिंह	15.02.2005

2. उपर्युक्त अधिकारियों का वेतन अकार्यात्मक चयन ग्रेड में उनकी नियुक्ति की उपर्युक्त तारीख के अनुसार नियत किया जाएगा तथा अकार्यात्मक चयन ग्रेड में उनकी नियुक्ति की तारीख से वे वेतन एवं भत्तों की बकाया राशि आहरित करने के हकदार होंगे।

आर. के. पॉल, सलाहकार (लागत)

नई दिल्ली, दिनांक 13 दिसम्बर 2006

सं. ए.-32013/8/2005-प्रशा. I--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से तथा अगले आदेशों तक 12,000-375-16,500/- रुपये के वेतनमान में भारतीय लागत लेखा

सेवा में संयुक्त निदेशक (लागत) के ग्रेड में प्रोफार्मा स्थानापन्न पदोन्नतियां प्रदान करते हैं प्रोफार्मा स्थानापन्न पदोन्नतियां पाने पर भी ये अधिकारी उनके नाम के सामने उल्लिखित मंत्रालय/विभाग/संगठनों में प्रतिनियुक्ति आधार पर कार्य करते रहेंगे :-

क्रम अधिकारी का नाम सं.	प्रोफार्मा पदोन्नति की प्रभावी तारीख	वर्तमान कार्यस्थल
1. श्री टी. ए. बासिल	14.07.2006	एफ. आई. सी. सी., रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
2. श्री जे. के. टियोटिया	14.07.2006	सीरियस फ्रॉड जांच कार्यालय, कंपनी कार्य मंत्रालय

ए. के. सोनी, संयुक्त निदेशक (लागत)

कम्पनी कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 14 दिसम्बर 2006

सं. ए.-12023/4/2006-प्रशा.-IV--राष्ट्रपति रक्षा मंत्रालय (वित्त प्रभाग) में वित्त प्रबंधक, श्री सुआ लाल बंकर, आईडीएस (1980) को दिनांक 5.12.2006 (पूर्वाह्न) से पांच वर्षों की अवधि या अगले आदेश तक जो भी पहले हो, के लिए 18,400--22,400 रुपये के वेतनमान में कंपनी मंत्रालय में सचिव, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (संयुक्त सचिव स्तरीय) के रूप में नियुक्त करते हैं।

एन. के. विग, अवर सचिव

दिनांक 19 दिसम्बर 2006

सं. ए.-12023/11/2006-प्रशा.-IV--राष्ट्रपति श्री सुबोध प्रसाद देव, आईओएस (90) को दिनांक 12.12.2006 (पूर्वाह्न) से पांच वर्षों की अवधि या अगले आदेश तक जो भी पहले हो, के लिए 16400-450-20,000/- रुपये के वेतनमान में कंपनी कार्य मंत्रालय में महानिदेशक जांच एवं पंजीकरण (डीजीआईएण्डआर), नई दिल्ली के कार्यालय में अपर महानिदेशक (निदेशक स्तरीय) के पद पर नियुक्त करते हैं।

एन. के. विग, अवर सचिव

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

(उर्वरक विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 13 नवम्बर 2006

सं. ए.-23011/15/2006-मा. सं. II--कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 21.9.2006 के आदेश सं. 5/8/2006-सीएस-I डेस्क (भाग-III) के अनुसरण में, राष्ट्रपति केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी, श्री दिनेश मोहन वर्मा को 4 अक्टूबर, 2006 के अपराह्न से अगले आदेश तक 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में उर्वरक

विभाग में निम्नलिखित शर्तों के अधीन पूर्णतया तदर्थ आधार पर अवर सचिव नियुक्त करते हैं :—

(i) तदर्थ पदोन्नति से अनिश्चित काल तक ग्रेड में कार्यरत रहने अथवा नियमित नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल करने अथवा ग्रेड-I में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार नहीं मिलेगा।

(ii) तदर्थ पदोन्नति को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

रघुनाथ राय, अवर सचिव

खान मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 18 दिसम्बर 2006

सं. पी.-1/451/2006-स्था.-वर्ष 2003 के लिए आशुलिपिक “क” एवं “ख” (विलय) की चयनित सूची में नाम शामिल होने तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 18 मई, 2006 के का. ज्ञा. सं. 5/10/2005-सी. एस.-I द्वारा नामांकन खान मंत्रालय संवर्ग में किए जाने के फलस्वरूप, राष्ट्रपति, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय संवर्ग में सी. एस. एस. के आशुलिपिक ग्रेड “ग”, श्री आर. एस. नेगी को 01.12.2006 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक, खान मंत्रालय में आशुलिपिक ग्रेड “क” एवं “ख” (निजी सचिव के पद पर पदनामित) के पद पर नियुक्त करते हैं।

प्रमोद चंद, अवर सचिव

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

नई दिल्ली-110049, दिनांक 22 दिसम्बर 2006

सं. ए.-19011/13/2006-प्रशा.-राष्ट्रपति श्री उत्तम प्रकाश को 22.12.2006 (पूर्वाह्न) से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में तदर्थ आधार पर अवर सचिव (के. स. स. ग्रेड-I) के रूप में नियुक्त करते हैं।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 12.12.2006 के आदेश सं. 5/8/2006-सी.एस.-I (डेस्क) (पी. टी.) की शर्तों के अनुसार, यह नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :—

(i) उक्त तदर्थ पदोन्नति इस ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल होने अथवा ग्रेड-I में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं देगी।

(ii) उक्त तदर्थ नियुक्ति किसी भी समय कोई कारण बताए बिना समाप्त की जा सकती है।

इलांगबम राबर्ट सिंह, अवर सचिव

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 15 दिसम्बर 2006

सं. ए.-12011/24/2006-प्रशासन-राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 5/20/2005-सी.एस.-II के अनुसार

और संघ लोक सेवा आयोग से कार्यमुक्त हो जाने के परिणामस्वरूप श्री प्रेम प्रकाश को 8 दिसम्बर, 2006 के अपराह्न से अगले आदेशों तक 12,000-375-16,500/- रुपये के वेतनमान में उपभोक्ता मामले विभाग के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग में वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

एस. के. नायक, उप सचिव

नई दिल्ली-110011, दिनांक 18 दिसम्बर 2006

सं. ए.-32013/01/2006-रा. प. शाला-राष्ट्रपति, डॉ. रजत घोष दस्तीदर, वैज्ञानिक अधिकारी (भौतिक-रबड़/प्लास्टिक एवं वस्त्र) (पी. आर. पी. टी.) को 14 नवम्बर, 2006 (पूर्वाह्न) से राष्ट्रीय परीक्षण शाला में 8,000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान में नियमित आधार पर वैज्ञानिक एस. बी. (भौतिकी-रबड़/प्लास्टिक एवं वस्त्र) के पद पर नियुक्त करते हैं।

एम. राम जोगेश, अवर सचिव

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 29 नवम्बर 2006

सं. ए.-11011/1/2004-स्था.-1-राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा के श्री सुनील पोरवाल (एमएच-83) को खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में 18,400-22,400/- रुपये के वेतनमान में दिनांक 27 नवम्बर, 2006 के पूर्वाह्न से 5 वर्ष की सामान्य अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

रमण कुमार गौड़, अवर सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 8 दिसम्बर 2006

सं. एस. एम./01/07/2006-राष्ट्रपति, भारतीय सर्वेक्षण विभाग में श्री अमित अधिकारी, सहायक प्रबन्धक, मानचित्र पुनरुत्पादन को प्रबन्धक, मानचित्र पुनरुत्पादन (कनिष्ठ) ग्रुप ‘ए’ सामान्य केन्द्रीय सेवा के पद पर 8,000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान में दिनांक 10.11.2006 से आगामी आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

बी. के. रायचन्दानी, अवर सचिव

(बायोटेक्नोलॉजी विभाग)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 11 दिसम्बर 2006

सं. बी.टी./सी.ओ. 06/004/2005-पीपीवीसी-जैवप्रौद्योगिकी विभाग द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5(1) के तहत जारी

दिनांक 29 सितम्बर, 2006 और 30 नवम्बर, 2006 की समसंख्यक सूचना को निम्न प्रकार से रूपान्तरित किया जाता है :--

1. अधिसूचना के अंत में एक नई प्रविष्टि की गई है :--

19. डॉ. सूचिता निनावे वैज्ञानिक 'ई' 24363722 एसबीआईआरआई से संबंधित सभी मामले

2. शेष अधिसूचना में कोई बदलाव नहीं है।

प्राची सरूप, निदेशक

#### पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 28 नवम्बर 2006

सं. 18014/04/2006-भा.व.सेवा-II--भारतीय वन सेवा (विनियमन और वरिष्ठता) नियमावली 1997 के नियम 3 (3)(ii)(क) द्वारा प्रदत्त उपबंधों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार भारतीय वन सेवा के मध्य प्रदेश संवर्ग के निम्नलिखित भारतीय वन सेवा अधिकारियों का वरिष्ठता आवंटन वर्ष निम्न प्रकार से निर्धारित करती है।

क्रम अधिकारी का नाम चयन सूची वर्ष आवंटन वर्ष सं.

1. श्री नाहर सिंह (अनु. जनजाति)	2004	1999
2. श्री हरीशचन्द्र गुप्ता	2004	1999
3. श्री रवीन्द्र सक्सेना	2004	1999
4. श्री ओमप्रकाश तिवारी	2004	1999
5. श्री विक्रम सिंह परिहार	2004	1999
6. श्री विन्सेंट रहीम	2004	1999
7. श्री रवीकांत मिश्रा	2004	1999

2. इन्हें भा. व. सेवा (वरिष्ठता का विनियमन) 1997 के अनुसार संबंधित बैच के सीधे भर्ती के सबसे कनिष्ठ अधिकारी के बाद रखा जाएगा।

जी. देवनानी, अवर सचिव

दिनांक 24 नवम्बर 2006

सं. 17012/01/2006-भा.व.से.-II--राष्ट्रपति, भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियमावली, 1966 के नियम 6 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित उम्मीदवारों को, जिन्होंने भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2004/2005 को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया है, भारतीय वन सेवा में उनके नाम के सामने दर्शायी गई तिथि से परीक्षा पर नियुक्त करते हैं।

क्रम अधिकारी का नाम परीक्षा वर्ष नियुक्ति की तिथि सं.

1	2	3	4
सर्वश्री			
1. नंद किशोर	2005	07.08.2006 (पूर्वाह)	
2. राजा रामसिंह	2005	07.08.2006 (पूर्वाह)	

1.	2	3	4
	सर्वश्री		
3.	राजागोपाल प्रशांत	2005	07.08.2006 (पूर्वाह)
4.	अशोक कुमार	2005	07.08.2006 (पूर्वाह)
5.	सुश्री अदिति शर्मा	2005	07.08.2006 (पूर्वाह)
6.	विवेक आचार्य	2005	07.08.2006 (पूर्वाह)
7.	इरफान रसूल वानी	2005	07.08.2006 (पूर्वाह)
8.	मल्लिकार्जुन जी.	2005	07.08.2006 (पूर्वाह)
9.	सुश्री स्मिता पंकज	2005	07.08.2006 (पूर्वाह)
10.	राजू अगासिमनी	2005	07.08.2006 (पूर्वाह)
11.	प्रमोद पी. पी.	2005	07.08.2006 (पूर्वाह)
12.	बारापत्रे अभय भास्कर	2005	07.08.2006 (पूर्वाह)
13.	जितेन्द्र एस. रामागाओकर	2005	07.08.2006 (पूर्वाह)
14.	किशोर एस. मनकर	2005	07.08.2006 (पूर्वाह)
15.	केनेईलहाऊटेली मियाचिओ	2005	07.08.2006 (पूर्वाह)
16.	ए. पेरियासमी	2005	07.08.2006 (पूर्वाह)
17.	भास्कर जे. वी.	2005	07.08.2006 (पूर्वाह)
18.	देवप्रसाद जे.	2005	07.08.2006 (पूर्वाह)
19.	जयाचन्द्रन के. एस.	2005	07.08.2006 (पूर्वाह)
20.	एम. के. कुमार	2005	07.08.2006 (पूर्वाह)
21.	माथेश्वरन वी.	2005	07.08.2006 (पूर्वाह)
22.	एन. सैथिल कुमार	2005	07.08.2006 (पूर्वाह)
23.	पी. अरुण प्रसाद	2005	07.08.2006 (पूर्वाह)
24.	एस. कुमारस्वामी	2005	14.08.2006 (पूर्वाह)
25.	एस. सुवराज	2005	07.08.2006 (पूर्वाह)
26.	विजयन नाथन	2005	07.08.2006 (पूर्वाह)
27.	धर्मदेव राय	2005	07.08.2006 (पूर्वाह)
28.	धमेन्द्र प्रताप सिंह	2005	07.08.2006 (पूर्वाह)
29.	वैभव चन्द्र माथुर	2005	07.08.2006 (पूर्वाह)
30.	मनीष कुमार	2005	07.08.2006 (पूर्वाह)
31.	शरद प्रताप सिंह	2004	07.08.2006 (पूर्वाह)
32.	बी. सुचिन्द्रा	2004	07.08.2006 (पूर्वाह)
33.	एस. रमेश कुमार	2004	07.08.2006 (पूर्वाह)
34.	गणेश कुमार के.	2005	18.08.2006 (पूर्वाह)
35.	सुश्री कोज रिन्या	2005	28.08.2006 (पूर्वाह)
36.	कमलाहार आर.	2005	28.08.2006 (पूर्वाह)
37.	दीपक एस. बिल्लगी	2005	29.08.2006 (पूर्वाह)

जी. देवनानी, अवर सचिव

दिनांक 28 नवम्बर 2006

सं. 18014/04/2006-भा.व. सेवा-II--भारतीय वन सेवा (विनियमन और वरिष्ठता) नियमावली 1997 के नियम 3 (3)(ii) (क) द्वारा प्रदत्त उपबंधों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार भारतीय वन सेवा के मध्य प्रदेश संवर्ग के निम्नलिखित 9 (नौ) भारतीय वन सेवा अधिकारियों का वरिष्ठता आवंटन वर्ष निम्न प्रकार से निर्धारित करती है।

क्रम अधिकारीका नाम सं.	चयन सूची वर्ष	आवंटन वर्ष
1. श्री राम स्वरूप सिकरवार	2005	1999
2. श्री संजय मोहोरार	2005	2000
3. श्री रेवा शंकर कोरी (अनु. जाति)	2005	2000
4. श्री हलधर प्रसाद झारिया (अनु. जाति)	2005	2000
5. श्री सुरेश कुमार पलास (अनु. जाति)	2005	2000
6. श्री कैलास प्रसाद बांगेर	2005	2000
7. श्री ओम प्रकाश ओछरिया (अनु. जाति)	2005	2000
8. श्री अशोक कुमार डिमरी	2005	2000
9. श्री राजेन्द्र प्रसाद राय	2005	2000

2. इन्हें भा. व. सेवा (वरिष्ठता का विनियमन) 1997 के अनुसार संबंधित बैच के सीधे भर्ती के सबसे कनिष्ठ अधिकारी के बाद रखा जाएगा।

जी. देवनानी, अवर सचिव

दिनांक 30 नवम्बर 2006

सं. 17013/12/2000-भा.व. सेवा-II--भारतीय वन सेवा (विनियमन और वरिष्ठता) नियमावली 1997 के नियम 3 (3)(ii) (क) द्वारा प्रदत्त उपबंधों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार भारतीय वन सेवा के मणिपुर संवर्ग के निम्नलिखित भारतीय वन सेवा अधिकारी का वरिष्ठता आवंटन वर्ष निम्न प्रकार से निर्धारित करती है।

क्रम अधिकारी का नाम सं.	चयन सूची वर्ष	आवंटन वर्ष
1. श्री ठाकुर महेन्द्र प्रताप सिंह	2004	1995

2. इन्हें भा. व. सेवा (वरिष्ठता का विनियमन) 1997 के अनुसार संबंधित बैच के सीधे भर्ती के सबसे कनिष्ठ अधिकारी के बाद रखा जाएगा।

जी. देवनानी, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 20 दिसम्बर 2006

सं. ए.-39012/3/2006-सी.एच.एस.-III--केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापन विशेषज्ञ उप-संवर्ग के विशेषज्ञ ग्रेड-I के अधिकारी डॉ. दिनकर आर. पई ने त्यागपत्र स्वीकार हो जाने के परिणामस्वरूप 31.10.2006 पूर्वाह्न से जेपमेर, पाण्डिचेरी में शल्य चिकित्सा विशेषज्ञ के प्रोफेसर का कार्यभार छोड़ दिया।

राम लाल, अवर सचिव

दिनांक 22 दिसम्बर 2006

सं. ए. 12025/21/2005-सी. एच. एस.-III--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर, डॉ. सपना सिंह को 7 दिसम्बर, 2006 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापन विशेषज्ञ उप संवर्ग में विकिरण निदान की स्पेशियलिटी में सहायक प्रोफेसर के पद पर एक वर्ष के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं।

राम लाल, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 24 नवम्बर 2006

सं. 27-2693/2006-स्था.-1--राष्ट्रपति केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के नियमित ग्रेड-I अधिकारी (अवर सचिव) श्री सतीश कुमार को कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग में 22 नवम्बर, 2006 की पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक पूर्णतः तदर्थ आधार पर सीएसएस में चयनित ग्रेड अधिकारी (उप सचिव) नियुक्त करते हैं।

2. यह तदर्थ नियुक्ति इस ग्रेड में अनिश्चित समय के लिए बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति हेतु चयन सूची में इनके नाम को शामिल करने अथवा चयन ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने हेतु कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी। यह तदर्थ नियुक्ति बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।

पी. विजय कुमार, अवर सचिव

दिनांक 4 दिसम्बर 2006

सं. 27-2669/2006-स्थापना-I--राष्ट्रपति ने श्री गोकुल चन्द्र पाती, भारतीय प्रशासनिक सेवा (ओ. आर. : 78) को कृषि एवं सहकारिता विभाग में 4 दिसम्बर, 2006 की पूर्वाह्न से 18,400-500-22,400/- रुपये के वेतनमान में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया है।

पी. विजय कुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 20 दिसम्बर 2006

सं. 5-1/04-आई.एन.एम.ए.--सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से, कृषि एवं सहकारिता विभाग के अधीन कार्यालय केन्द्रीय उर्वरक नियंत्रण संस्थान, फरीदाबाद में 8,000-13,500/- रुपये के वेतनमान में श्री के. के. धींगरा, नियमित सहायक निदेशक (सामान्य केन्द्रीय समूह 'क' राजपत्रित जो वर्तमान में तदर्थ आधार पर उपनिदेशक, क्षेत्रीय उर्वरक नियंत्रण प्रयोगशाला (आरएफसीएल), नवी मुम्बई के पद पर कार्यरत है, को केन्द्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद में 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में (सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित अनुसचिवीय) उप निदेशक के पद पर 11 अगस्त, 2004 से और अगले आदेशों तक नियमित किया जाता है।

डी. के. राय, अवर सचिव



(पशुपालन डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 19 दिसम्बर 2006

सं. 3-20/99-मा. (प्र.)--राष्ट्रपति श्री एम. राजाबेल को दिनांक 1.11.2006 के पूर्वाह्न से केन्द्रीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, नौचालन तथा इंजीनियरी प्रशिक्षण, कोचीन में 8,000-13,500/- रुपये के वेतनमान में वरिष्ठ अनुदेशक (सामान्य), (समूह "क" राजपत्रित) नियुक्त करते हैं। वे उक्त तिथि से दो वर्षों की अवधि तक परिवीक्षाधीन होंगे।

सुदीप कोहली, अवर सचिव

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 21 नवम्बर 2006

सं. 16011/2/2002-एससीडी-IV--राष्ट्रपति, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के संगम अनुच्छेद के अनुच्छेद 56(3) के अनुसरण में, निम्नलिखित को शासकीय निदेशक के रूप में उक्त निगम के निदेशक मंडल में तत्काल प्रभाव से तथा अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

1. श्री आर. के. शर्मा, उप सचिव, बैंकिंग प्रभाग, वित्त मंत्रालय।
2. श्री पी. के. पाटी, अपर विकास आयुक्त एवं आर्थिक सलाहकार, लघु उद्योग मंत्रालय।
3. श्री डी. वी. एस. रंगा, संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय।

संजीव बहल, अवर सचिव

सं. 16011/2/2002-एससीडी-IV--राष्ट्रपति, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के संगम अनुच्छेद के अनुच्छेद 56(3) के अनुसरण में, निम्नलिखित को पदेन निदेशक के रूप में, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के निदेशक मंडल में तीन वर्ष की अवधि के लिए तत्काल प्रभाव से तथा अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

1. प्रबंध निदेशक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी, अनुसूचित जाति एवं विकास निगम लि. रायपुर।
2. प्रबंध निदेशक, दिल्ली अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, दिल्ली।
3. प्रबंध निदेशक, बहु उद्देश्य वित्त एवं विकास निगम, देहरादून, उत्तरांचल।
4. प्रबंध निदेशक, महात्मा फुले पिछड़ा वर्ग विकास निगम लि., मुम्बई।

संजीव बहल, अवर सचिव

सं. 17014/32/97-एससीडी-IV--राष्ट्रपति, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम के संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद के अनुच्छेद 52(v) के अनुसरण में, श्री रवि बंसल, उप महाप्रबंधक (क्षेत्रीय ग्रामीण

बैंक, अग्रणी बैंक व सामुदायिक सेवाएं) को डॉ. जी. बी. राजकुमार, के स्थान पर शासकीय निदेशक के रूप में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम के निदेशक मंडल में तत्काल प्रभाव से तथा अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

संजीव बहल, अवर सचिव

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 20 दिसम्बर 2006

सं. 3(4)/2005-कार्मिक-I--राष्ट्रपति जी ने इस विभाग के निम्नलिखित वैज्ञानिक 'एफ' को पदोन्नत होने पर, उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में 18,400-500-22,400/- रुपये के वेतनमान में वैज्ञानिक 'जी' नियुक्त किया है :--

1. डॉ. गोविन्द (कर्मचारी कोड सं. 132) - 14.12.2006 (पूर्वाह्न)
2. श्री देबाशीष दत्ता (कर्मचारी कोड सं. 125) - 15.12.2006 (पूर्वाह्न)
3. श्री आई. के. शर्मा (कर्मचारी कोड सं. 87) - 14.12.2006 (पूर्वाह्न)
4. श्रीमती जतिन्दर खुराना (कर्मचारी कोड सं. 88) - 15.12.2006 (पूर्वाह्न)
5. डॉ. जी. वी. रामाराजू (कर्मचारी कोड सं. 129) - 14.12.2006 (पूर्वाह्न)

गिरीश सहाय, उप निदेशक

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र

नई दिल्ली-110003, दिनांक 20 दिसम्बर 2005

सं. 4727/एनआईसी/2006-क. व स्था. II--महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र एतद्वारा श्री धीरज कुमार राघव (कर्मचारी कोड सं. 4727) को राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, पंजाब राज्य एकक, चण्डीगढ़ से वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर-ग्रेड "एस. बी" के पद से त्यागपत्र दिनांक 9 मार्च, 2001 की अपराह्न से स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन से सेवा से कार्यमुक्त किया जाता है।

पी. एस. पिल्लै, उप निदेशक (कार्मिक व स्था.-II)

(डाक विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 14 दिसम्बर 2006

सं. 1-44/2005-एसपीजी--राष्ट्रपति भारतीय डाक सेवा-1970 बैंक के अधिकारी श्री आई. एम. जी. खान, को दिनांक 31 दिसम्बर, 2006 के अपराह्न से उनकी अधिवर्षिता की अवधि या आगामी आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, सचिव, डाक विभाग और डाक महानिदेशक तथा पदेन अध्यक्ष, डाक सेवा बोर्ड के रूप में नियुक्त करते हैं।

बी. पी. पंत, सहायक महानिदेशक (एसपीजी)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 27 दिसम्बर 2006

सं. 1-44/2005-एसपीजी--श्रीमती ज्योत्सना घोष, (भारतीय डाक सेवा-1969), सचिव डाक विभाग एवं महानिदेशक (डाक) और पदेन, अध्यक्ष, डाक सेवा बोर्ड, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर 31.12.2006 (अपराह) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएंगी।

स्मृति शरण, निदेशक (स्टाफ)

नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 20 दिसम्बर 2006

सं. ए.-32014/1/2004-आर. एस.--राष्ट्रपति, नागर विमानन मंत्रालय, रेल संरक्षा आयोग, उत्तर परिमंडल, नई दिल्ली में रुपये 5,000-8,000/- के वेतनमान में कार्यरत श्री चैन सुख व्यक्तिक सहायक को प्रोन्नति पर रुपये 7,500-250-12,000/- के वेतनमान में वरिष्ठ निजी सचिव के पद पर इसी कार्यालय में दिनांक 02.12.2006 (पूर्वाह) से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

संदीप प्रकाश, निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 22 दिसम्बर 2006

सं. ए.-11013/1/2002-प्रशा./एसएफएस/डीडी--राष्ट्रपति, श्री गोपाल कृष्ण, जो प्रतिनियुक्ति आधार पर 8,000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान में नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो में सहायक सुरक्षा आयुक्त (नागर विमानन) के रूप में कार्य कर रहे थे की प्रतिनियुक्ति अवधि को 7वें वर्ष में दिनांक 16.01.2004 से 15.01.2005 तक और 8वें वर्ष में 16.01.2005 से 31.01.2005 तक बढ़ाते हैं।

संजीव जिन्दल, अवर सचिव

पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

पोत परिवहन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 20 दिसम्बर 2006

सं. ए.-12026/4/2001-स्था.--राष्ट्रपति, श्री जे. सी. तलवार, मुख्य प्रारूपकार (साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ख", राजपत्रित, अनुसचिवीय) की तदर्थ नियुक्ति को 6,500-200-10,500/- रुपये के वेतनमान में दिनांक 12.11.2006 से दिनांक 11.05.2007 अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो सहर्ष बढ़ाते हैं। अन्य शर्तें उसी प्रकार रहेंगी जैसी इस मंत्रालय के कार्यालय आदेश सं. 137/2003 दिनांक 13.11.2003 (ए.-12026/4/2001स्था.) में दर्शायी गई हैं।

सुधेश कुमार शाही, अवर सचिव

सं. ए.-12026/4/2001-स्था.--राष्ट्रपति, श्री अनिल कुमार प्रुथी, मुख्य प्रारूपकार (साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ख", राजपत्रित, अनुसचिवीय) की तदर्थ नियुक्ति को 6,500-200-10,500/- रुपये के वेतनमान में दिनांक 20.10.2006 से दिनांक 19.04.2007 अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, सहर्ष बढ़ाते हैं अन्य शर्तें उसी प्रकार रहेंगी जैसी इस मंत्रालय के कार्यालय आदेश सं. 134/2004 दिनांक 21.10.2004 (ए.-12026/4/2001-स्था.) में दर्शायी गई हैं।

सुधेश कुमार शाही, अवर सचिव

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 18 दिसम्बर 2006

सं. ए.-12025/01/2006-ई-2--राष्ट्रपति, श्री संतोष कुमार आर्य को सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग, नई दिल्ली में दिनांक 07.12.2006 (पूर्वाह) से आगामी आदेशों तक रुपये 8,000-275-13,500/- के वेतनमान में केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा (सड़क) समूह "क" के सहायक कार्यपालक इंजीनियर (सिविल) के पद पर नियुक्त करते हैं।

डॉ. आर. के. अग्रवाल, अवर सचिव

दिनांक 22 दिसम्बर 2006

सं. ए.-12025/01/2006-ई-2--राष्ट्रपति, श्री शैलेश को सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली, में दिनांक 18.12.2006 (अपराह) से आगामी आदेशों तक रुपये 8,000-275-13,500/- के वेतनमान में केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा (सड़क) समूह 'क' के सहायक कार्यपालक अभियंता (सिविल) के पद पर नियुक्त करते हैं।

डॉ. आर. के. अग्रवाल, अवर सचिव

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 5 दिसम्बर 2006

सं. 50/2006-मि. सं. ए.-38012/1/2006-प्रशा. एक--आधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर, श्री धर्म पाल जोकि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरिंग (समूह-क) सेवा में मुख्य अभियंता के पद पर कार्यरत थे, भारत सरकार की सेवा से 31 अक्टूबर, 2006 के अपराह से सेवा निवृत्त हो गए हैं।

आर. सी. अरोड़ा, अवर सचिव

सं. 51/2006-मि. सं. ए.-38012/1/2006-प्रशा. एक--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर, श्री वी. के. टंडन जोकि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरिंग (समूह-क) सेवा में निदेशक के पद पर कार्यरत थे, भारत सरकार की सेवा से 30 नवम्बर, 2006 के अपराह से सेवा निवृत्त हो गए हैं।

आर. सी. अरोड़ा, अवर सचिव

शहरी विकास मंत्रालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 15 दिसम्बर 2006

सं. ए.-11013/2/2005-प्रशासन-I--राष्ट्रपति द्वारा श्री अतुल तिवारी, आईएएस (कर्नाटक : 90) को दिनांक 13.11.2006 (पूर्वाह) से पांच वर्ष की अवधि अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, भारत सरकार में निदेशक स्तर पर शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) का निजी सचिव नियुक्त किया जाता है।

श्रीमती एस. पी. मुंजाल, अवर सचिव

## PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 21st November 2006

No. A-12013/02/2006-Adm.II.—The President is pleased to appoint the following Research Officers of GCS of the Planning Commission as Senior Research Officers in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- against the GCS post indicated against each on purely ad-hoc basis for a period of one year with effect from 21.11.2006 (FN) or until the posts are filled on regular basis or until the regular incumbents join the posts, or until further orders, whichever is the earliest:—

Sl. No.	Name & Designation	Post to which appointed
1.	Dr. Ranjan Kumar Pradhan RO (Chemical Engg.)	SRO (Chemical Engg.)
2.	Sh. Dinesh Dhawan RO (Project Appraisal)	SRO (Natural Science)

2. The ad-hoc appointment will not bestow on any of the officers any claim for regular appointment in the grade of Senior Research Officer and also that any service rendered by any of them on ad-hoc basis in the grade of Senior Research Officer would neither count for the purpose of seniority in the grade of Senior Research Officer nor towards eligibility for promotion to the next higher grade.

R. K. PARMAR, Under Secy.

The 13th December 2006

No. A-43014/03/2006-Admn.II.—Consequent on his promotion to the Junior Administrative Grade (JAG) of Indian Economic Service vide Ministry of Finance, Department of Economic Affairs Order No. 11016/3/2006-IES dated 08.12.2006 Shri Sanwar Mall Meena is relieved from the post of Senior Research Officer in the Planning Commission with effect from the afternoon of 13th December, 2006.

R. K. PARMAR, Under Secy.

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-1, the 14th December 2006

No. 14031/1/2003-UTS.—On attaining the age of superannuation, Shri S. M. Mazumdar, Indian Administrative Service Officer of 1991 Batch of Joint Cadre of Arunachal Pradesh-Goa-Mizoram-Union Territories, retired from service in the afternoon of 30th November, 2006.

S. C. L. DAS, Director

No. 14031/1/2003-UTS.—On attaining the age of superannuation, Shri Tagom Darrang, an Indian Administrative Service Officer of 1991 Batch of Joint Cadre

of Arunachal Pradesh-Goa-Mizoram-Union Territories, retired from service in the afternoon of 30th November, 2006.

S. C. L. DAS, Director

New Delhi, the 21st December 2006

No. 14011/1/2006-SR (Part).—In continuation of this Ministry's notification No. 14011/2/2002-SR dated 08.01.2004, the period of deputation of Shri K. N. Manjunatha, Deputy Director in the Army Head Quarters, New Delhi as Deputy Secretary, Zonal Council Secretariat, Ministry of Home Affairs, New Delhi, is extended on the same terms and conditions for a period of 6 months with effect from 1st January 2007, or until further orders, whichever is earlier.

SUMITA MUKHERJEE, Director

New Delhi, the 26th December 2006

No. I-18012/20/2006-IPS-I.—In exercise of the powers conferred by Rule 3-A of the Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm, the following members of the Indian Police Service, allocated to the Cadre of Tamil Nadu in the Indian Police Service, with effect from the dates indicated against each:—

Sl. No.	Name of the Officer	Date of confirmation in the IPS
	S/Shri	
1.	K. Periaiah	21.05.2004
2.	A. G. Mouriya	21.05.2004
3.	A. Pari	21.05.2004
4.	N. K. Senthamarai Kannan	21.05.2004
5.	K. N. Sathiyamurthi	21.05.2004
6.	C. Sridhar	21.05.2004
7.	S. Murugan	21.05.2004
8.	V. Varadharaju	21.05.2004

O. S. ASHOK, Under Secy.

## MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES &amp; PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL &amp; TRAINING)

New Delhi, the 15th December 2006

## CORRIGENDUM

No. 14015/13/2006-AIS(I)-A.—The name appearing at Sl. No. 4 of this Department's Notification of even number dated 11th December, 2006 notifying the Select List of 2006 for promotion to IAS cadre of Madhya Pradesh may be read as Sh. S. Suhail Ali instead of Sh. S. Sushail Ali.

JAGAN LAL, Under Secy.

The 22nd December 2006

No. 14015/24/2006-AIS(I)-A.—In terms of the provisions contained in Sub-regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the Union Public Service Commission has approved the Select List of 2006 on 15th December, 2006 for West Bengal Cadre, containing the names of the following members of the State Civil Service of West Bengal Cadre, prepared by the Selection Committee in its meeting held on 6th October, 2006, towards filling up 12 (twelve) vacancies during 2006 in the Indian Administrative Service:—

SELECT LIST 2006

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Birth
	S/Shri	
1.	Deb Kumar Chakrabarti	21.10.1953
2.	Rampada Biswas (SC)	26.11.1953
3.	Smt. Bandana Bandyopadhyay (Chakraborty)	07.07.1954
4.	Harsha Gopal Musib (OBC)	04.12.1952
5.	Somesh Kumar Bhattacharya	05.01.1955
6.	Dilip Kumar Chakraborty	03.06.1955
7.	Umashankar Mondal (SC)	09.04.1954
8.	Debi Prasad Bandhopadhyay	01.04.1952
9.	Debabrata Pal	29.01.1956
10.	Prithwi Dulal Bandhopadhyay	27.10.1953
11.	Smt. Shila Nag (Pahari)	11.04.1952
12.	Md. Shahidul Islam	12.10.1954

JAGAN LAL, Under Secy.

No. 14015/24/2006-AIS(I)-B.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of Rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 read with sub-regulation (1) of Regulation 9 of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint the following members of the State Civil Service of West Bengal to the Indian Administrative Service against the vacancies for the year 2006 on probation with immediate effect until further orders and to allocate them to the West Bengal Cadre, under sub-rule (1) of Rule 5 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954:—

Sl. No.	Name of the Officer
1	2
	S/Shri
1.	Deb Kumar Chakrabarti
2.	Rampada Biswas (SC)

1	2
	S/Shri
3.	Smt. Bandana Bandyopadhyay (Chakraborty)
4.	Harsha Gopal Musib (OBC)
5.	Somesh Kumar Bhattacharya
6.	Dilip Kumar Chakraborty
7.	Umashankar Mondal (SC)
8.	Debi Prasad Bandhopadhyay
9.	Debabrata Pal
10.	Prithwi Dulal Bandhopadhyay
11.	Smt. Shila Nag (Pahari)
12.	Md. Shahidul Islam

JAGAN LAL, Under Secy.

No. 14015/24/2006-AIS(I)-A.—In terms of the provisions contained in Sub-regulation (1) of Regulation 7 of the Indian Administrative Service (Appointment by Selection) Regulations, 1997, the Union Public Service Commission has approved the 2006 Select List on 15th December, 2006 for containing the names of the following members of the Non-State Civil Service of the State of West Bengal prepared by the Selection Committee in its meeting held on 11th October, 2006, towards filling up 2 (two) existing vacancies in the West Bengal Cadre of the Indian Administrative Service, during 2006:—

SELECT LIST 2006

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Birth
	S/Shri	
1.	Susanta Majumdar	05.12.1953
2.	Apurba Ratan Chakraborty	05.07.1953

JAGAN LAL, Under Secy.

No. 14015/24/2006-AIS(I)-B.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of Rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 read with sub-regulation (1) of Regulation 8 of the Indian Administrative Service (Appointment by Selection) Regulations, 1997 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint S/Sh. Susanta Majumdar and Apurba Ratan Chakraborty, Non-State Civil Service officers of West Bengal to the Indian Administrative Service on probation with immediate effect until further orders and to allocate them to the West Bengal Cadre, under sub-rule (1) of Rule 5 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954.

JAGAN LAL, Under Secy.

New Delhi, the 22nd December 2006

No. 39021/03/2006-Estt (B).—The President is pleased to appoint Smt. C. T. Misra, IAS (GJ: 72) as Chairperson, Staff Selection Commission with effect from 30th October, 2006 (Afternoon). Her appointment as Chairperson, Staff Selection Commission beyond the age of her superannuation will be as on re-employment basis, limiting her tenure upto 62 years or until further orders, whichever is earlier.

C. A. SUBRAMANIAN, Director

#### MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 30th October 2006

No. Q/PF/661(9)/11/2005.—In continuation of this Ministry's earlier Notification Number 3/PF/2005 dated 18th March, 2005 and subsequent Notification Number 1/PF/2006 dated 20th January, 2006, the President has approved to terminate the ad-hoc promotion of Shri S. K. Bihani to the grade of Assistant Library & Information Officer (ALIO) in this Ministry with effect from the forenoon of 8th October, 2006. Shri S. K. Bihani has now been reverted to the grade of Senior Library & Information Assistant which is a non-gazetted post, with effect from the forenoon of 8th October, 2006.

Shri Sanjay Kumar Bihani had assumed charge of the post of Assistant Library & Information Officer on ad-hoc basis with effect from 1st March, 2005.

RAMESH P. CHATURVEDI, Admn. Officer (PF)

No. Q/PF/6619/1/2003.—The President is pleased to appoint Shri Wazir Singh Mour, Senior Library & Information Assistant, as Assistant Library & Information Officer in this Ministry with effect from 10.10.2006 (FN).

Shri Wazir Singh Mour has assumed charge to the post of Assistant Library and Information Officer in the forenoon of 10th October, 2006.

RAMESH P. CHATURVEDI, Admn. Officer (PF)

New Delhi, the 1st November 2006

No. Q/PA-I/47/2006.—On attaining the age of superannuation, Shri Alagapurian Karupaiyah, Ambassador of India to Republic of Yemen (Sana'a), retired from Grade-III of the Indian Foreign Service on the afternoon of 31.10.2006.

ARINDAM BAGCHL, Dy. Secy. (FSP)

New Delhi, the 12th December 2006

No. 06/PB-I/2006.—Consequent upon acceptance of his request for voluntary retirement under Rule 38 of CCS Pension Rules, Shri Jerome Xaxa, an officer of the Integrated

Grades-II & III of General Cadre of Indian Foreign Service (B) has retired from Government service in the forenoon of 23.11.2006 and relinquished charge of the post of Section Officer in the Ministry of External Affairs in the forenoon of 23rd November 2006.

JALADHI MUKHERJEE, Admn. Officer (PB-I)

#### MINISTRY OF FINANCE

#### (DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 28th November 2006

No. 88 (F. No. A-19011/23/2006-Ad.I).—The President of India is pleased to appoint Shri S. K. Shingal IRS (C&CE: 1970), as Member of the Central Board of Excise & Customs (CBEC) in the Ministry of Finance, Department of Revenue with effect from 23rd November 2006 (AN) and until further orders.

SHYAMALA MOHAN, Under Secy.

No. 89 (F. No. A-19012/21/2006-Ad.I).—In continuation of this Department's Notification No. 3 dated 04.01.2005, the President of India is pleased to appoint Shri M. Subramanyam, IRS (C&CE: 91), Deputy Secretary as Director in the Department of Revenue with effect from 12.10.2006 (FN), for the balance period of his five years tenure i.e., upto 02.01.2010, or until further orders, whichever is earlier.

SHYAMALA MOHAN, Under Secy.

No. 90 (F. No. A-19012/9/2005-Ad.I).—In continuation of this Department's Notification No. 74 dated 12.07.2005, the President of India is pleased to appoint Shri P. V. Subba Rao, IRS (C&CE: 91), Deputy Secretary as Director in the Department of Revenue with effect from 01.10.2006 (FN), for the balance period of his five years tenure i.e., upto 30.06.2010, or until further orders, whichever is earlier.

SHYAMALA MOHAN, Under Secy.

No. 91 (F. No. A-19012/5/2003-Ad.I).—In continuation of this Department's Notification No. 18 dated 13.02.2003, the President of India is pleased to appoint Ms. Priya V. K. Singh, IRS (C&CE: 91), Deputy Secretary as Director in the Department of Revenue with effect from 16.09.2005 (FN), for the balance period of her five years tenure i.e., upto 10.02.2008, or until further orders, whichever is earlier.

SHYAMALA MOHAN, Under Secy.

No. 92 (F. No. A-19012/13/2005-Ad.I).—In continuation of this Department's Notification No. 115.A dated 13.02.2003, the President of India is pleased to

appoint Ms. Simmi Jain, IRS (C&CE: 91), Deputy Secretary as Director in the Department of Revenue with effect from 16.09.2005 (FN), for the balance period of her five years tenure i.e., upto 25.09.2010, or until further orders, whichever is earlier.

SHYAMALA MOHAN, Under Secy.

New Delhi, the 14th December 2006

No. 4/2006 (F. No. 26/7/2006-Ad.IC).—The President of India is pleased to appoint Shri Debendranath Panda, Advocate as Member (Judicial) in the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal, (CESTAT) Kolkata with effect from 22.11.06 (forenoon) and till attaining the age of 62 years and until further orders.

PREETI PANT, Under Secy.

No. 5/2006 (F. No. 26/08/2006-Ad.IC).—The President of India is pleased to appoint Shri Pradip Kumar Das, Advocate as Member (Judicial) in the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal, (CESTAT) New Delhi with effect from 22.11.06 (forenoon) and till attaining the age of 62 years and until further orders whichever is earlier.

PREETI PANT, Under Secy.

#### (DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 15th December 2006

No. A-42011/1/2004-Admn.IA.—Consequent upon the grant of Non-Functional Selection Grade (NFSG) in the scale of pay of Rs. 14,300-400-18,300/- vide Department of Economic Affairs (IES Section)'s Order No. 11016/5/2000-IES (Vol. II) dated 06.12.2006, the President is pleased to appoint Ms. Anna Roy and Shri Alok Chandra, Junior Administrative Grade officers of IES, as Directors, as a measure personal to them, in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs with effect from the 9th October, 2006 and until further orders.

V. RAMKUMAR, Under Secy.

New Delhi, the 22nd December 2006

No. A-19012/14/2006-Admn.IA.—The President is pleased to appoint Shri Rajan Kumar, a Non-Functional Selection Grade officers of IES, as Director in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs in the pay scale of Rs. 14,300-400-18,300/- with effect from the forenoon of 1st December, 2006 and until further orders.

NEELAM VOHRA, Under Secy.

#### DEPARTMENT OF EXPENDITURE

#### OFFICE OF THE CHIEF ADVISER COST

New Delhi, the 28th November 2006

No. A-32013/4/2005-AD-I.—The President is pleased to appoint the following Joint Director (Cost) of the Indian Cost

Accounts Service under Ministry of Finance, Department of Expenditure as Director (Cost)—Non-Functional Selection Grade in the same service in the pay scale of Rs. 14,300-400-18,300/- w.e.f. the date indicated against their names:—

Sl. No.	Name of the Officers	Date of Appointment as Director (Cost)
1.	Smt. Anima Datta Swamy	01.08.2003
2.	Shri G. Ramachandran	18.11.2004
3.	Shri S. C. Bera	15.02.2005
4.	Shri M. K. Anand	15.02.2005
5.	Shri G. R. Wadhwa	15.02.2005
6.	Shri M. P. Singh	15.02.2005
7.	Shri I. P. Singh	15.02.2005

2. The pay of the above mentioned officers will be fixed in the Non-Functional Selection Grade from the date of their appointment as mentioned above and they will be entitled to draw arrears of pay and allowances from the date of their appointment in the Non-Functional Selection Grade.

R. K. Paul, Adviser (Cost)

New Delhi, the 13th December 2006

No. A-32013/8/2005-Ad.I.—The President is pleased to grant proforma officiating promotions, to the following officers in the grade of Joint Director (Cost) in the Indian Cost Accounts Service, carrying a pay scale of Rs. 12,000-375-16,500/- with effect from the date indicated against the name of Officer and until further orders. On being granted the proforma officiating promotions these officers will continue to work on deputation in the Ministry/Department/Organisations mentioned against their names:—

Sl. No.	Name of Officer	Effective date of Proforma Promotion	Place where presently working
1.	Shri T. A. Basil	14.07.2006	FICC, Ministry of Chemicals & Fertilisers
2.	Shri J. K. Teotia	14.07.2006	Serious Fraud Investigation office, Ministry of Company Affairs

A. K. SONI, Jt. Director (Cost)

#### MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS

New Delhi-110011, the 14th December 2006

No. A-12023/4/2006-Ad.IV.—The President is pleased to appoint Shri Sua Lal Bunker, IDAS (1980), Finance Manager in Ministry of Defence (Finance Division) as Secretary, Competition Commission of India (Joint Secretary level) in

the Ministry of Company Affairs in the scale of Rs. 18,400—22,400/- with effect from 05.12.2006 (FN), for a period of five years or until further orders whichever event takes place earlier.

N. K. VIG, Under Secy.

The 19th December 2006

No. A-12023/11/2006-Ad.IV.—The President is pleased to appoint Shri Subodh Prasad Deo, IOFS (90) to the post of Additional Director General in the office of Director General of Investigation and Registration (DGI&R), New Delhi [Director level] in the Ministry of Company Affairs in the scale of Rs. 16,400-450-20,000/- with effect from 12.12.2006 (FN), for a period of five years or until further orders whichever event takes place earlier.

N. K. VIG, Under Secy.

#### MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS

##### (DEPARTMENT OF FERTILIZERS)

New Delhi, the 13th November 2006

No. A-23011/15/2006-HR.II.—In pursuance of DOPT's Order No. 5/8/2006-CS.I Desk (Pt. III) dated 21.09.2006, the President is pleased to appoint Shri Dinesh Mohan Verma, Section Officer of the CSS as Under Secretary purely on adhoc basis in the Department of Fertilizers in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- w.e.f. the forenoon of 4th October, 2006 until further orders subject to the following conditions:—

- (i) The ad-hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade-I.
- (ii) Ad-hoc appointments may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

RAGHUNATH RAI, Under Secy.

#### MINISTRY OF MINES

New Delhi, the 18th December 2006

No. P-I/451/2006-Estt.—Consequent upon inclusion of his name in the Select List for the Stenographer "A" & "B" (Merged) for the year 2003 and his nomination to the Cadre of Ministry of Mines by the Department of Personnel and Training vide their O. M. No. 5/10/2005-CS.I dated 18th May, 2006, the President is pleased to appoint Shri R. S. Negi, an Stenographer Grade "C" of CSSS borne on the cadre of Ministry of Environment and Forest as Stenographer Grade "A" & "B" (Designated as Private Secretary) in the Ministry of Mines, with effect from the forenoon of 01.12.2006 and until further orders.

PRAMOD CHAND, Under Secy.

#### MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

New Delhi-110049, the 22nd December 2006

No. A-19011/13/2006-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Uttam Prakash, as Under Secretary (Grade I of CSS) on ad-hoc basis in the Ministry of Food Processing Industries w.e.f. 22.12.2006 (FN).

In terms of the Department of Personnel & Training's Order No. 5/8/2006-C.S.I (Desk (pt.) dated 12.12.2006, the appointment will be subject to the following conditions:—

- (i) The ad-hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade-I.
- (ii) Ad-hoc appointments may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

ELANGBAM ROBERT SINGH, Under Secy.

#### MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

##### (DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS)

No. A-12011/24/2006-Estt.—In pursuance of Department of Personnel & Training's O. M. No. 5/20/2005-CS.II dated 06.11.2006 and consequent upon his relieving from the UPSC, the President is pleased to appoint Shri Prem Parkash as Senior Principal Private Secretary of CSSS Cadre in the Department of Consumer Affairs in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- with effect from the afternoon of 8th December, 2006 and until further orders.

S. K. NAYAK, Dy. Secy.

New Delhi-110011, the 18th December 2006

No. A-32013/01/2006-NTH.—The President is pleased to appoint Dr. Rajat Ghosh Dastidar, Scientific Officer (Physical-Rubber/Plastics and Textiles) (PRPT) on promotion to the grade of Scientist-SB (PRPT) on regular basis, in the National Test House in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- with effect from 14th November, 2006 (FN).

M. RAM JOGESH, Under Secy.

#### (DEPARTMENT OF FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION)

New Delhi, the 22nd November 2006

No. A-11011/1/2004-E.I.—The President is pleased to appoint Shri Sunil Porwal, IAS (MH: 83) as Joint Secretary in the Department of Food & Public Distribution w.e.f. the forenoon of 27th November, 2006 in the pay scale of Rs. 18,400—22,400/- for a normal tenure of five years or until further orders, whichever event takes place earlier.

RAMAN KUMAR GAUR, Under Secy.

MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY  
(DEPARTMENT OF SCIENCE & TECHNOLOGY)

New Delhi, the 8th December 2006

No. SM/01/07/2006.—The President is pleased to appoint Shri Amit Adhikary, Assistant Manager, Map Reproduction in Survey of India as Manager, Map Reproduction (Junior) in the Pay Scale of Rs. 8,000-275-13,500/- in General Central Service (Group 'A') w.e.f. 01.11.2006 until further order.

B. K. RAICHANDANI, Under Secy.

(DEPARTMENT OF BIOTECHNOLOGY)

New Delhi, the 11th December 2006

No. BT/CO.06/004/2005-PPVC.—The Notification of even number dated 29th September, 2006 & 30th November, 2006 issued by Department of Biotechnology in terms of Section 5(1) of the Right to Information Act, 2005, is hereby modified as under:—

1. A new entry at the end of the Notification may be inserted, namely:—

19. Dr. Suchitra Ninawe	Scientist 'E'	2436 3722	All matters related to SBIRI
-------------------------	---------------	-----------	------------------------------

2. The rest of the Notification will remain unchanged.

PRACHI SAROOP, Director

MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

New Delhi-110003, the 20th November 2006

No. 18014/04/2006-IFS-II.—In exercise of the provisions conferred by rule 3 (3) (ii) (a) of Indian Forest Service (Regulation and Seniority) Rules, 1997, the Central Government hereby determined the Seniority/Year of Allotment of undermentioned Indian Forest Service Officers, borne on Madhya Pradesh Cadre in the Indian Forest Service as under:—

Sl. No.	Name of the Officer	Select List Year	Year of Allotment
1.	Sh. Nahar Singh (ST)	2004	1999
2.	Sh. Harish Chandra Gupta	2004	1999
3.	Sh. Ravindra Saxena	2004	1999
4.	Sh. Om Prakash Tiwari	2004	1999
5.	Sh. Vikram Singh Parihar	2004	1999
6.	Sh. Vinsent Rahim	2004	1999
7.	Sh. Ravikar Mishra	2004	1999

2. They will be placed below the junior most direct recruit officer of the concerned batch as per IFS (Regulation of Seniority) Rules, 1997.

G. Devnani, Under Secy.

The 24th November 2006

No. 17012/01/2006-IFS-II.—In exercise of the provisions conferred by rule 6 of the IFS (Recruitment) Rules, 1966, the President is pleased to appoint the following candidates who competed successfully at the Indian Forest Service Examination, 2004/2005 to the Indian Forest Service on probation with effect from the dates shown against their names:—

Sl. No.	Name of the Officer	Year of Examination	Date of Joining
1	2	3	4
	S/Shri		
1.	Nand Kishore	2005	07.08.2006 (FN)
2.	Raja Ram Singh	2005	07.08.2006 (FN)
3.	Rajagopal Prashant	2005	07.08.2006 (FN)
4.	Ashok Kumar	2005	07.08.2006 (FN)
5.	Ms. Aditi Sharma	2005	07.08.2006 (FN)
6.	Vivek Acharya	2005	07.08.2006 (FN)
7.	Irfan Rasool Wani	2005	07.08.2006 (FN)
8.	Mallikaarjuna G.	2005	07.08.2006 (FN)
9.	Ms. Smitha Pankaj	2005	07.08.2006 (FN)
10.	Raju Agasimani	2005	07.08.2006 (FN)
11.	Pramod P. P.	2005	07.08.2006 (FN)
12.	Barapatre Abhay Bhaskar	2005	07.08.2006 (FN)
13.	Jitendra S. Ramagaokar	2005	07.08.2006 (FN)
14.	Kishore S. Mankar	2005	07.08.2006 (FN)
15.	Keneilhoutolie Miachio	2005	07.08.2006 (FN)
16.	A. Periasamy	2005	07.08.2006 (FN)
17.	Bhaskar J. V.	2005	07.08.2006 (FN)
18.	Devaprasad J.	2005	07.08.2006 (FN)
19.	Jayachandran K. S.	2005	07.08.2006 (FN)
20.	M. K. Kumar	2005	07.08.2006 (FN)
21.	Matheshwara V.	2005	07.08.2006 (FN)
22.	N. Senthil Kumar	2005	07.08.2006 (FN)
23.	P. Arun Prasad	2005	14.08.2006 (FN)
24.	S. Kumarasamy	2005	07.08.2006 (FN)
25.	S. Yuvraj	2005	07.08.2006 (FN)
26.	Vijayananthan K.	2005	07.08.2006 (FN)
27.	Dharmdeo Rai	2005	07.08.2006 (FN)
28.	Dharmendra Pratap Singh	2005	07.08.2006 (FN)
29.	Vaibhav Chandra Mathur	2005	07.08.2006 (FN)



1	2	3	4
	S/Shri		
30.	Manish Kumar	2005	07.08.2006 (FN)
31.	Sharda Pratap Singh	2004	07.08.2006 (FN)
32.	B. Suchindra	2004	07.08.2006 (FN)
33.	S. Ramesh Kumar	2004	07.08.2006 (FN)
34.	Ganesh Kumar K	2005	18.08.2006 (FN)
35.	Ms. Koj Rinya	2005	28.08.2006 (FN)
36.	Kamalahar R.	2005	28.08.2006 (FN)
37.	Deepak S. Bilgi	2005	29.08.2006 (FN)

G. DEVNANI, Under Secy.

The 28th November 2006

No. 18014/04/2006-IFS-II.—In exercise of the provisions conferred by rule 3 (3) (ii) (a) of Indian Forest Service (Regulation and Seniority) Rules, 1997, the Central Government hereby determine the Seniority/Year of Allotment of undermentioned 9 (nine) Indian Forest Service Officers, borne on Madhya Pradesh Cadre in the Indian Forest Service as under:—

Sl. No.	Name of the Officer	Select List Year	Year of Allotment
1.	Sh. Ram Swarup Sikarwar	2005	1999
2.	Sh. Sanjay Moharir	2005	2000
3.	Sh. Reva Shankar Kori (SC)	2005	2000
4.	Sh. Haldhar Prasad Jharia (SC)	2005	2000
5.	Sh. Suresh Kumar Palas (SC)	2005	2000
6.	Sh. Kailash Prasad Benger	2005	2000
7.	Sh. Om Prakash Ocharia (SC)	2005	2000
8.	Sh. Ashok Kumar Dimri	2005	2000
9.	Sh. Rajendra Prasad Rai	2005	2000

2. They will be placed below the junior most direct recruit officer of the concerned batch as per IFS (Regulation of Seniority) Rules, 1997.

G. DEVNANI, Under Secy.

The 30th November 2006

No. 17013/12/2000-IFS-II.—In exercise of the provisions conferred by rule 3 (3) (ii) (a) of Indian Forest Service (Regulation and Seniority) Rules, 1997, the Central Government hereby determine the Seniority/Year of Allotment of undermentioned Indian Forest Service Officers, borne on Manipur Cadre in the Indian Forest Service as under:—

Sl. No.	Name of the Officer	Select List Year	Year of Allotment
1.	Sh. T. Mahendra Pratap Singh	2000	1995

2. He will be placed below the junior most direct recruit officer of the concerned batch as per IFS (Regulation of Seniority) Rules, 1997.

G. DEVNANI, Under Secy.

## MINISTRY OF HEALTH &amp; FAMILY WELFARE

New Delhi, the 20th December 2006

No. A-39012/3/2006-CHS-III.—Consequent on acceptance of his resignation, Dr. Dinkar R. Pai, an officer of the Special Grade I in the Teaching Specialist Sub-cadre of the Central Health Services relinquished charge of the post of Professor in the specialty of surgery at JIPMER, Pondicherry on the forenoon of 31.10.2006.

RAM LAL, Under Secy.

The 22nd December 2006

No. A-12025/21/2005-CHS.III.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Sapna Singh to the post of Assistant Professor in the specialty of Radio Diagnosis in the Teaching Specialist Sub-cadre of Central Health Service, on probation for one year, with effect from the forenoon of the 07.12.2006 and until further orders.

RAM LAL, Under Secy.

## MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE &amp; COOPERATION)

New Delhi, the 24th November 2006

No. 27-2693/2006-E-I.—The President is pleased to appoint Shri Satish Kumar, a regular Grade-I Officer (Under Secretary) of the Central Secretariat Service (CSS), to the Selection Grade (Deputy Secretary) of the CSS in the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture & Cooperation purely on ad-hoc basis with effect from the forenoon of 22nd November, 2006, until further orders.

2. The ad-hoc appointment shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion of his name in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Selection Grade. The ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

P. VIJAY KUMAR, Under Secy.

The 4th December 2006

No. 27-2669/2006-E.I.—The President is pleased to appoint Shri Gokul Chandra Pati, IAS (OR: 78) as Joint Secretary in the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture & Cooperation in the pay scale of Rs. 18,400-500-22,400/- w.e.f. the forenoon of 4th December, 2006.

P. VIJAY KUMAR, Under Secy.

New Delhi, the 20th December 2006

No. 5-1/04-INM-A.—With the approval of Competent Authority, Shri K. K. Dhingra, regular Assistant Director (General Central Services, Group 'A' Gazetted) under the Central Fertilizer Quality Control & Training Institute, Faridabad a subordinate office under the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation, in the scale of pay of Rs. 8,000—13,500/- and presently working as Deputy Director, Regional Fertilizer Control Laboratory (RFCL), Navi Mumbai on ad-hoc basis is hereby appointed to the post of Deputy Director (General Central Service, Group 'A' Gazetted Non-Ministerial) at RFCL, Navi Mumbai, under Central Fertilizer Quality Control & Training Institute, Faridabad in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- on regular promotion basis with effect from 11th August, 2004 and until further orders.

D. K. ROY, Under Secy.

New Delhi, the 19th December 2006

No. 3-20/99-Fy.(Admn.)—The President is pleased to appoint Shri M. Rajavel to the post of Senior Instructor (General) (Group 'A' Gazetted) in the Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training, Cochin in the pay scale of Rs. 8,000—13,500/- with effect from the forenoon of 01.11.2006. He will be on probation for a period of two years with effect from the same date.

SUDEEPA KOHLI, Under Secy.

#### MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

New Delhi-1, the 21st November 2006

No. 16011/2/2002-SCD-IV.—In pursuance of Article 56(3) of Articles of Association of the National Scheduled Castes Finance and Development Corporation, the President is pleased to appoint the following as Official Directors on the Board of Directors of the said Corporation, with immediate effect and till further orders:—

1. Shri R. K. Sharma, Deputy Secretary, Banking Division, Ministry of Finance.
2. Shri P. K. Padhy, Addl. Development Commissioner & Economic Adviser, Ministry of Small Scale Industries.
3. Shri D. V. S. Ranga, Joint Secretary, Ministry of Social Justice & Empowerment.

SANJEEV BEHL, Under Secy.

No. 16011/2/2002-SCD-IV.—In pursuance of Article 56(3) of Articles of Association of the National Scheduled Castes Finance and Development Corporation, the President is pleased to appoint the following on the Board of Directors of National Scheduled Caste Finance and Development

Corporation as ex-officio Directors for a period of three years or till further orders with immediate effect:—

1. Managing Director, Chhattisgarh State Co-op. Scheduled Castes Finance & Development Corporation Ltd., Raipur.
2. Managing Director, Delhi Scheduled Castes Financial and Development Corporation, Delhi.
3. Managing Director, Bahu Udasay Vita Avam Vikas Nigam, Dehradun, Uttaranchal.
4. Managing Director, Mahatma Phule Backward Classes Development Corporation Ltd., Mumbai.

SANJEEV BEHL, Under Secy.

No. 17014/32/97-SCD-IV.—In pursuance of Article 52(v) of Memorandum and Article of Association of National Safai Karmacharis Finance & Development Corporation, (NSKFDC), the President is pleased to appoint Shri Ravi Bansal, Deputy General Manager (Regional Rural Banks, Lead Bank & Community Services), in place of Dr. G. B. Rajkumar, as Official Director on the Board of Directors of NSKFDC with immediate effect and until further orders.

SANJEEV BEHL, Under Secy.

#### MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

##### (DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY)

New Delhi-110003, the 20th December 2006

No. 3(4)/2005-Pers.I.—The President is pleased to appoint on promotion the following Scientist 'F' of this Department as Scientist 'G' in the scale of pay of Rs. 18,400-500-22,400/- in the Department of Information Technology w.e.f. the dates mentioned against each:—

1. Dr. Govind	(E. Code No. 132)	14.12.2006 (FN)
2. Sh. Debashis Dutta	(E. Code No. 125)	15.12.2006 (FN)
3. Sh. I. K. Sharma	(E. Code. No. 87)	14.12.2006 (FN)
4. Smt. Jatinder Khurana	(E. Code. No. 88)	15.12.2006 (FN)
5. Dr. G. V. Ramaraju	(E. Code. No. 129)	18.12.2006 (FN)

GIRISH SAHAI, Dy. Director

#### (NATIONAL INFORMATICS CENTRE)

New Delhi-110003, the 20th December 2006

No. 4727/NIC/2006-P&E-II.—The Director General, NIC is pleased to accept the resignation of Sh. Dhiraj Kumar Raghav (Emp. Code No. 4727), from the post of Scientific Officer/Engineer Gr. 'SB', National Informatics Centre—Punjab State Unit, Chandigarh, with effect from the afternoon of 9th March, 2001 and he is relieved of his duties from the same day.

P. S. PILLAI, Dy. Director (P&E-II)

## (DEPARTMENT OF POSTS)

New Delhi-110001, the 14th December 2006

No. 1-44/2005-SPG.—The President is pleased to appoint Shri I. M. G. Khan IPoS-1970, as Secretary, Department of Posts and Director General (Posts) and ex-officio Chairman, Postal Services Board, with effect from the afternoon of 31st December, 2006 for a period of until his superannuation or until further orders whichever is earlier.

B. P. PANT, Asstt. Director General (SGP)

New Delhi-110001, the 27th December 2006

No. 1-44/2005-SPG.—Smt. Jyotsna Diesh, IPoS (1969), Secretary, Department of Posts and Director General (Posts) and ex-officio Chairperson, Postal Services Board will retire from Government service w.e.f. 31.12.2006 (AN) on attaining the age of superannuation.

SMRITI SHARAN, Director (Staff)

## MINISTRY OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 20th December 2006

No. A-32014/1/2004-RS.—The President is pleased to appoint Shri Chain Sukh, Personal Assistant working in the grade of Rs. 5,000—8,000/- in the Commission of Railway Safety, Northern Circle, New Delhi on promotion as Sr. Private Secretary in the scale of pay of Rs. 7,500-250-12,000/- in the same office with effect from 02.12.2006 (FN) until further orders.

SANDEEP PRAKASH, Director

New Delhi, the 22nd December 2006

No. A-11013/1/2002-Admn./SFS/DD.—The President is pleased to extend the deputation period from 16.01.2004 to 15.01.2005 in the 7th year and 16.01.2005 to 31.01.2005 in the 8th year in respect of Shri Gopal Krishna who was working as Assistant Commissioners of Seniority (Civil Aviation) in the Bureau of Civil Aviation Security in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- on deputation basis.

SANJIV JINDAL, Under Secy.

## MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

## (DEPARTMENT OF SHIPPING)

New Delhi, the 20th December 2006

No. A-12026/4/2001-Estt.—The President is pleased to extend the ad-hoc appointment of Shri J. C. Talwar, Chief Draftsman (General Central Service, Group 'B' Gazetted, Non-Ministerial) in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- w.e.f. 12.11.2006 to 11.05.2007 or until further orders, whichever is earlier. The other conditions would remain same as indicated in this

Ministry's Office Order No. 137/2003 dated 13.11.2003. (A-12026/4/2001-Estt.).

S. K. SHAHI, Under Secy.

No. A-12026/4/2001-Estt.—The President is pleased to extend the ad-hoc appointment of Shri Anil Kumar Pruthi, Chief Draftsman (General Central Service, Group 'B' Gazetted, Non-Ministerial) in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- w.e.f. 20.10.2006 to 19.04.2007 or until further orders, whichever is earlier. The other conditions would remain same as indicated in this Ministry's Office Order No. 134/2004 dated 21.10.2004. (A-12026/4/2001-Estt.).

S. K. SHAHI, Under Secy.

## (DEPARTMENT OF ROAD TRANSPORT &amp; HIGHWAYS)

New Delhi, the 18th December 2006

No. A-12025/1/2006-E.II.—The President is pleased to appoint Shri Santosh Kumar Arya as Assistant Executive Engineer (Civil) of Central Engineering Service (Roads) Group 'A' in the Department of Road Transport & Highways, New Delhi, in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- w.e.f. 07.12.2006 (FN) and until further orders.

DR. R. K. AGRAWAL, Under Secy.

The 22nd December 2006

No. A-12025/1/2006-E.II.—The President is pleased to appoint Shri Shailish as Assistant Executive Engineer (Civil) of Central Engineering Service (Roads) Group 'A' in the Department of Road Transport & Highways, New Delhi, in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- w.e.f. 18.12.2006 (AN) and until further orders.

DR. R. K. AGRAWAL, Under Secy.

## MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 5th December 2006

No. 50/2006. F.No. A-38012/1/2006-Admn.I.—Shri Dharam Paul, Chief Engineer, Central Electricity Authority and an officer of the Central Power Engineering (Group A) Service, retired from service under the Government of India in the afternoon of 31st October, 2006 on attaining the age of superannuation.

R. C. ARORA, Under Secy.

No. 51/2006. F.No. A-38012/1/2006-Admn.I.—Shri V. K. Tandon, Director, Central Electricity Authority and an officer of the Central Power Engineering (Group A) Service, retired from service under the Government of India in the

afternoon of 30th November, 2006 on attaining the age of superannuation.

R. C. AROBA, Under Secy.

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

New Delhi, the 18th December 2006

No. A-11013/2/2005-Admn.I.—The President is pleased to appoint Shri Atul Kumar Tiwari, IAS (KN: 90) as Private

Secretary to the Minister of Urban Development (Shri S. Jaipal Reddy) at the level of Director in the Government of India with effect from 13.11.2006 (AN) for a period of five years until further orders, whichever event takes place earlier.

SMT. S. P. MUNJAL, Under Secy.